

Date: August 9, 2025

1. The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited

(Scrip Symbol: NAUKRI)

2. The Manager-Listing BSE Limited (Scrip Code: 532777)

Dear Sir/Madam.

Subject: <u>Intimation of Publication of Un-audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025</u>

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Unaudited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025 published in the following editions:

- Business Standard (National Daily newspaper) on August 9, 2025
- Business Standard (Daily newspaper of the State) on August 9, 2025

A copy of the same is also being uploaded on the website of the Company at www.infoedge.in.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **Info Edge (India) Limited** 

Jaya Bhatia Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above



# Margin gains likely for Godrej Consumer in H2

Company's June-quarter numbers were a mixed bag

Mumbai, 8 August

The June-quarter numbers of Godrei Consumer Products Ltd (GCPL) were a mixed bag as the company delivered on volume and revenue fronts while margin performance was sub par.

While consolidated volume growth came in at 8 per cent, the Indian business saw mid-teens volume uptick with the exception of the soap portfolio.

Brokerages are positive on expectations of steady volume growth trajectory and margin recovery in the second half of FY26.

The India business, which accounted for 63 per cent of consolidated revenues, posted a 7.7 per cent growth in revenues.

While the strong show was led by the homecare segment, revenues for the soap business were flat as volume remained under pressure. Homecare grew 16 per cent over the year-ago quarter, led by the household insecticides segment.

The company gained market share in the insecticides segment with a double-digit volume growth in electrics while incense sticks recorded a jump of 2.5 times Y-o-Y. The aircare, fabric care and hair colour businesses saw doubledigit growth.

The company gained market share in the fabric care business with volumes growing in double digits for the sixth consecutive quarter and gains for liquid detergent brand Fab despite taking price hikes. GCPL posted mid-teens growth in deodorants and perfumes with price reduction in markets such as Tamil Nadu resulting in a two-fold jump in volumes.

Commenting on the performance in Q1, analysts led by Naveen Trivedi of Motilal Oswal Research, said, "The Indian business is gradually getting back on track for accelerated volume growth, with Q1 performance reinforcing confi-



## Lagging behind

Godrej Consumer ProductsBSE 100



dence in an improving trajectory." International business sales were led by strong growth in Africa, Latin America partially offset by

weakness in Indonesia Sunny Bhadra and Krishnan Sambamoorthy of Nirmal Bang Research believe that Indonesia remains a key monitorable with a combination of macro slowdown and increased competitive intensity. These could have an impact on consolidated yearly operating profit growth if the situation does not improve on either of the fronts.

Higher raw material costs, however, offset the gains on the revenue front. Gross margins were down by

400 basis points (bps) Y-o-Y and 60 bps Q-o-Q to 51.9 per cent.

What helped the company arrest the fall on the operating profit margin front was the flat employee and other expenses as a percentage of sales.

This coupled with lower advertising cost — which was down 140 bps Y-o-Y — restricted operating profit margin contraction to 280 bps to 19 per cent.

With palm oil prices easing towards the end of June, the company is expected to recover its margins in the second half.

The combination of volume traction and margin tailwinds strengthens earnings visibility, says Motilal Oswal Research.

The brokerage sees 11 per cent revenue growth and 13 per cent operating profit growth over the FY25-28 period. It has a buy rating with a target price of ₹1,400 per share.

Kotak Research has cut earnings estimates by 4-5 per cent incorporating a weak Indonesia outlook, competitive pressure in India soaps and the recent increase in palm oil prices.

It has an add rating with a target price of ₹1,260 per share.



**INVESTING IN TREASURY BILLS** 

# Use SIP to smooth rate volatility, ensure disciplined investing

### HIMALI PATEL

The Reserve Bank of India (RBI) has introduced the systematic investment plan (SIP) feature for investing in treasury bills (T-Bills) via its Retail Direct platform, Retail investors must understand the suitability of this instrument for their financial goals before venturing into it.

## **Understanding T-Bills**

T-Bills are short-term government borrowing instruments. "T-Rills have tenures like 91, 182 and 364 days. Dated government securities (G-Secs) are issued by the RBI for longer-term borrowing, with tenures ranging from one year to 50 years," says Udbhay Shah, proprietor, DrayvaSiddhi, an Association of Mutual Funds in India-registered mutual fund and strategic invest-

ment fund (SIF) distributor. They are zero-coupon instruments. "They are sold at a discount to their face value. The face value (₹100) is paid upon maturity," says Shah.

## Why invest in them?

Being government backed, they carry no default risk. "Their short tenures mean interest-rate movements have a lower impact on their prices," says Suresh Darak, founder, Bondbazaar. He adds that T-Bill yields, at 5-5.5 per cent, are higher than those offered by current and savings bank accounts.

Liquidity, reinvestment risks Liquidity and reinvestment risks are the key concerns. "Exiting before maturity is often difficult. Investors may face challenges in finding buyers and be forced to sell at unfavourable prices," says Raghvendra Nath, managing director, Ladderup Asset

Investors also face reinvestment risk in a falling-rate environment. "This is the risk of being forced to invest at a lower rate upon maturity," says Shah.

## How SIP helps

Retail investors can now automate T-Bill purchases using the auto-bidding facility. "The minimum lot size is ₹10,000. One can invest in multiples of ₹10,000 thereafter. Investors can decide the period of reinvestment." savs Darak

This facility improves access. "SIP brings the discipline of regular investing," says Vijay Kuppa, director, Bidd. He adds that an SIP structure can average out interest-rate movements.

### **Investor suitability**

SIP in T-Bills suits investors with a regular income stream looking to park funds in safe, short-term instruments. "Investors with short-term goals, where security and capital preservation are important, may consider them." says Ajay Kumar Yadav, chief

## Mistakes to avoid

- Failure to align T-Bill investments with liquidity needs, leading to premature exits at unfavourable prices
- Difference between face value and purchase price, not entire ₹100, is the return
- Yields can fluctuate from one week to another
- Tendency to treat T-Bills as long-term wealth-building instruments

executive officer (CEO) and chief investment officer, Wise Finserv.

"Young earners looking to park excess monthly savings in low-risk instruments, first-time fixed income investors who do not want to lock in funds for several years, and retirees or conservative investors who wish to avoid market-linked risks may consider them," savs Kuppa

T-Bills can help defer taxation until withdrawal (unlike bank interest, which is taxed annually). They can also enable investors to generate regular cash flows. "By purchasing T-Bills with staggered maturity dates, investors can receive fixed cash inflows at predetermined intervals for managing nearterm financial needs," says Nath.

T-Bills are not ideal for longterm wealth creation. "Those who need instant liquidity, or lack the regular cash flow required for SIPs, should stay away," says Kuppa. Yadav points out that those

seeking regular interest income, as offered by fixed deposits or bonds, may find T-Bills unsuitable. Investors who desire liquidity should access T-Bills via the mutual fund route. "Mutual funds offer higher liquidity and easier exit options," says Feroze Azeez, joint CEO, Anand Rathi Wealth. Investors should also take note of the taxation of these instruments. "Returns are fully taxable at slab rates, regardless of the holding period," says Azeez.

The writer is a Mumbai-based independent journalist

## ITR filed? Missing this post-filing step could mean no refund, more tax

The latest Central Board of Direct Taxes (CBDT) directive says that taxpayers must verify their income-tax (I-T) return (ITR) within 30 days of submission. If not, the return will be considered invalid, triggering penalties, delays, and loss of tax benefits.

Why e-verification matters "Many taxpavers wrongly assume

Read full report here: mybs.in/2epHJBw

that filing the return completes the process. But unless you verify your return, the I-T department doesn't treat it as filed at all," says Nivati Shah, chartered accountant and vertical head of personal tax at 1 Finance.

'Verification acts as the official acknowledgement of your return. Without it, even a timely and accurate ITR gets invalidated,

exposing the filer to penalties under Section 234F," said Shefali Mundra, tax expert at ClearTax.

### What's the easiest way to verify your ITR? According to CBDT, there are

multiple methods of e-verification: • Aadhaar OTP (most preferred

by individuals)

 Demat or bank account EVC • Digital signature certificate

(for professionals and firms)

Bank ATM • Sending a signed ITR-V to CPC

Bengaluru (physical mode) "Aadhaar OTP is the most seamless option for individual

taxpayers. It's instant and doesn't need any login credentials apart from the OTP,"says Shah.

COMPILED BY AMIT KUMAR

INFORMATION REGARDING 33<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

## **ANNUAL GENERAL MEETING**

- 1. Shareholders may note that the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through video conferencing and other audio visual means ('VC/OACM') on Friday, September 26, 2025 at 11:30 A.M. (IST) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations')read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), to transact the business set out in the Notice calling
- 2. In compliance with the above, an electronic copy of the Notice of the AGM and Annual Report for Financial Year 2024-25 will be sent to all the shareholders whose email IDS are registered with the K-Fin Technologies Limited / Depositories. Additionally, pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a letter will be sent to the Shareholders whose e-mail addresses are not registered, providing the web-link of Company's website, including the exact path, where complete details of the Annual Report for FY 2024-25 can be accessed. The Company shall send the physical copy of the Annual Report for FY 2024-25 only to those shareholders who specifically request for the same at cs@dicabs.com by mentioning their DPID & Client ID or Folio No., wherever applicable
- 3. The Notice of 33<sup>rd</sup> AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will also be made available on the Company's website, at www.dicabs.com and on the websites of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

4. Shareholders who wish to register/update their email ID are requested to follow the below instructions:

For shares in Physical Mode: Register/update the details with the Company's RTA by sending KYC Documents in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms, which is available on the Company's website at https://dicabs.com/investor/shareholders-information/ and submit the same to K-Fin Technologies Limited at Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032 along with the documents mentioned in

For shares in Electronic mode: Register/update the details in your demat account as per the process advised by Depository Participant(s).

- 5. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. The Company will provide its Members, the facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by K-Fin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA). Electronic voting shall also be made available to the Members participating in the AGM. In terms of SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9th December 2020, evoting process will also be enabled for all 'individual demat account holders', by way of a single login credential, through their demat accounts / websites of National Securities Depository Limited ('NSDL') and / or Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') or Depository Participant(s).
- 6. Shareholders who have not registered their email addresses will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized and physical mode will be provided in the Notice of AGM.
- 7. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote  ${\sf e}$ voting or by e-voting system at the AGM shall be Friday, September 19, 2025. The remote e-voting details are as under:

	Thursday, September 25, 2025 05:00 P.M. (IST)				
	g issued for the information and				

the applicable MCA and SEBI Circular(s). For Diamond Power Infrastructure Limited

09:00 A.M.(IST)

Monday, September 22, 2025

Membership No.: 56317

Ahmedabad, Diksha Sharma - Company Secretary 08th August, 2025

Remote e-voting start

date and time

Regd. Office: Phase II, Village Vadadala, Taluka - Savli, Vadodara - 391520 E-mail: cs@dicabs.com | www.dicabs.com | CIN: L31300GJ1992PLC018198





# Quadrangle infoedge

99acres

Net banking login

**V**shiksha

Jeevansathi.

## **INFO EDGE (INDIA) LIMITED**

Regd. Office: Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no.: 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website: www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Amount in ₹(N							ount in ₹(Mn)			
		Results on Standalone Basis				Results on Consolidated Basis				
Particulars	3 months ended 30/06/2025	Preceding 3 months ended 31/03/2025	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2024	Year ended 31/03/2025	3 months ended 30/06/2025	Preceding 3 months ended 31/03/2025	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2024	Year ended 31/03/2025		
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)		
1. Total Income from operations (net)	7,363.75	6,870.92	6,389.04	26,536.13	7,908.62	7,496.25	6,767.06	28,495.51		
<ol><li>Net profit for the period/year (before tax, exceptional items)</li></ol>	3,462.29	3,098.55	3,042.96	12,871.04	4,356.89	7,161.01	3,293.90	17,976.42		
<ol><li>Net profit for the period/year before tax (after exceptional items)</li></ol>	3,462.29	3,174.99	3,042.96	13,435.11	4,310.60	7,416.13	3,318.70	19,446.19		
4. Net Profit for the period/year after tax	2,596.20	2,550.65	2,322.86	7,734.20	3,428.56	6,778.92	2,588.58	13,099.01		
5. Total Comprehensive income/(loss) for the period/year (comprising profit for the period/year (after tax) and other comprehensive income/(loss) (after tax))	66,765.25	(75,146.12)	21,732.12	25,023.03	79,181.65	(97,099.93)	35,825.94	52,252.02		
6. Equity Share Capital	1,295.84	1,295.84	1,293.84	1,295.84	1,295.84	1,295.84	1,293.84	1,295.84		
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year				275,718.80				347,736.28		
Earnings per share (FV of ₹2 each) (Adjusted, not annualised)										
a) Basic - Profit after tax (after exceptional items)	4.01	3.94	3.60	11.96	4.57	7.16	3.61	14.88		
<ul> <li>a) Basic - Profit after tax [before exceptional items (net of tax &amp; Deferred tax)]</li> </ul>	4.01	3.82	3.60	15.42	4.64	6.77	3.57	17.88		
b) Diluted - Profit after tax (after exceptional items)	4.00	3.93	3.58	11.92	4.56	7.14	3.59	14.83		
b) Diluted - Profit after tax [before exceptional items (net of tax & Deferred tax)]	4.00	3.81	3.58	15.37	4.63	6.74	3.55	17.82		

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).

2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards(Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Stardards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.



Place: Noida Date: August 08, 2025

Hitesh Oberoi Managing Director DIN: 01189953

For & on behalf of the Board



**बिजनेस स्टैंडर्ड** नई दिल्ली | शनिवार, 9 अगस्त 2025

## **ा** एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड CIN: L99999HR1994PLC034146

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा फोन: 0124-4675500, फैक्स नं. : 0124-4370985

ई-मेल : corporate@hbestate.com, वेबसाइट : www.hbestate.com वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि **एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), **शनिवार, ०६ सितम्बर, २०२५ को दोपहर १२.०० बजे**, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित ०८ अप्रैल, २०२०, परिपत्र संख्या 17/२०२० दिनांकित १३ अप्रैल, २०२०, परिपत्र संख्या २०/२०२० दिनांकित ०५ मई, २०२०, परिपत्र संख्या २/२०२१ दिनांकित १३ जनवरी, २०२१, परिपत्र संख्या 02 / 2022 दिनांकित 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022, परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 तथा नवीनतम परिपत्र संख्या 09 / 2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपन्न संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई. 2022, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी – 2 पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ, सीएफडी /पीओडी-2 /पी /सीआईआर / 2023 / 167 दिनांकित 07 अक्टूबर 2023 तथा नवीनतम सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ /सीएफडी /पीओडी-2 /पी /सीआईआर / 2024 / 133 दिनांकित 03 अक्टूबर, 2024 (एतद्पश्चात सामूहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) अनुपालन में किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेन्स , ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेन्सी के रूप में नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

उपरोक्त परिपन्न(त्रों) के अनुपालन में, 31वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पार कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीबद्ध / उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <u>www.hbestate.com</u>, स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध

सदस्यों को एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा। भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों द्वारा तथा जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पता कम्पनी में पंजीकत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालर् हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, वे एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 तथा ई–वोटिंग के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स निम्नवर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं :

भौतिक धारण	कृपया एक अनुरोध पत्र, फोलियो नंबर, सदस्य के नाम के उल्लेख के साथ शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक), पैन कार्ड तथा सदस्य के पता प्रमाण की स्व सत्यापित स्कैन प्रति सहित कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पास investor.hb@rcmcdelhi.com पर ई—मेल के माध्यम से उपलब्ध करवाएं।
डीमैट घारण	कृपया अपना ई-मेल पता / बँक खाता विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपँट्स (डीपी'ज) के पास अद्यतन करवाएं।

कृते एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड हस्ता. / एन वी के राव

तिथि : 08 अगस्त, 2025 (कम्पनी सचिव) स्थान : गुरूग्राम M. No.: ACS-35382

erigd office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), nbai 400 051 **Corporate office**: Kotak Infiniti, Bldg No 21, Infinity Park neral AK Vaidya Marg, Malad (E), Mumbai 400 097 **www.kotak.com** 

AUCTION - NOTICE
That the below mentioned Borrower/s had availed gold loan facility against security of the gold ornaments/ items, as specified below. The Borrower/s defaulted in due repayment of the nstallments and outstanding dues and as a result of which the Bank was constrained to issue notices calling upon the Borrower/s to repay the outstanding amounts. However, the Borrower/s has failed to repay/clear his outstanding dues thereby compelling the Bank to auction the gold ornaments pledged in favour of the Bank.

Apppl	Apac/ Account No	Borrower Name	State	Location	Branch	Gross weight (In Gms
GLN	3649676	VINOD KUMAR TRIPATHI	DELHI	DELHI	ALAMBAGH	12.43
	3334921	MUSTAQEEMA .	DELHI	DELHI	BADHPURA	494.90
	3913010	SOM BIR	DELHI	DELHI	BAHADURGAR	20.50
	3919387 3921382	SUNIL KUMAR CHANDRESH SHARMA		DELHI	BAHADURGAR BALABHGARH	26.92 70.80
	3919537	CHANDRESH SHARMA		DELHI	BALABHGARH	104.80
	3884204	DEL CHAND			BALABHGARH	27.60
GLN	3884300	ASHISH KUMAR		DELHI	BALABHGARH	73.10
GLN		BABITA KUMARI	DELHI	DELHI	BALABHGARH	27.00
	3583570 3851478	NIRANJAN SINGH ASHVANI KUMAR		DELHI DELHI	BASAIAGRA	15.50
		BALVEER SINGH		DELHI	BIJNOR BIJNOR	77.20 141.60
	3433177	DEEPAK CHOUDHARY		DELHI	BIJNOR	33.50
	3427501	DEEPAK CHOUDHARY		DELHI	BIJNOR	12.10
	3413230	NAGMA NIGAR		DELHI	BIJNOR	66.10
	3477620	SHAHBAJ .		DELHI	BIJNOR	106.10
GLN	3906078 3553181	ROHIT KUMAR		DELHI DELHI	BIJNOR	99.70 71.40
	3406094	MALKA . NIRMA .	DEL HI	DELHI	DARIYAGANJ DARIYAGANJ	276.50
	3695189	MUNESH KUMAR		DELHI	DARIYAGANJ	24.60
	3588349	SUJEET KUMAR SINGH		DELHI	DWARKASEC5	50.30
	3300838	SHRESTHA DEV BURMAN	DELHI	DELHI	DWARKASEC5	31.30
	3891928	KRISHAN BIR SINGH		DELHI	DWARKASEC5	39.30
	3938362	KRISHAN BIR SINGH		DELHI	DWARKASEC5	115.40
	3876950	KRISHAN BIR SINGH	DELHI		DWARKASEC5	27.10
	3910712 3495884	AKASH TIWARI AKASH TIWARI		DELHI DELHI	DWARKASEC5 DWARKASEC5	26.60
	3851371	AKASH TIWARI		DELHI	DWARKASEC5 DWARKASEC5	29.70 15.30
	3497959	AKASH TIWARI		DELHI	DWARKASEC5	14.40
	3645726	AMIT KASHYAP		DELHI	DWARKASEC5	28.20
GLN	3891909	PANKAJ POKHRIYAL	DELHI	DELHI	DWARKASEC5	38.80
	3905598	VIKAS KUMAR		DELHI	DWARKASEC5	20.20
	3650049	ANITA DEVI		DELHI	DWARKASEC5	48.90
	3688700	YOGESH .		DELHI	FARIDABAD	63.30
	3467950 2739782	ARUN KUMAR PANDEY			FARIDBDNIT	17.30
	2739821	BILAL QURESHI BILAL QURESHI		DELHI DELHI	GHAZIABAD GHAZIABAD	59.10 99.10
	3653727	DHEERAJ .		DELHI	GHAZIABAD	26.30
	3869651	DHEERAJ .		DELHI	GHAZIABAD	23.90
GLN	3906918	MOHD AMIR		DELHI	GHAZIABAD	70.20
	3360780	RAJ BHARTI SINGH		DELHI		28.20
	3801812	FAZLUDDIN FAAYEZ		DELHI	GREATERND	41.80
	3913310	DINESH SINHA	DELHI DELHI		INDIRAPURA	117.00
	3913619 3619548	DINESH SINHA NEERAJ LODHI		DELHI DELHI	INDIRAPURA INDIRAPURA	80.60 20.10
	3837609	RASHMI GUPTA		DELHI	JNKPURI	86.30
	3900198	RASHMI GUPTA		DELHI	JNKPURI	28.50
	3853258	PAWAN KUMAR		DELHI	KAROLBAGH	27.70
	3658142	PAWAN KUMAR		DELHI	KAROLBAGH	33.50
	3869840	RASHI BHATIA	DELHI	DELHI	LOKVIHAR	229.10
GLN	3382079	VIKAS VERMA		DELHI	LUCKNONAKA	31.20
	3843820 3648550	ANKUR DHINGRA MANOJ KUMAR	DELHI	DELHI DELHI	MODEL TOWN	545.70 22.00
	3842308	DINESH SINHA		DELHI	MODEL TOWN NOIDA S-18	69.90
	3886823	KUNDAN KISHORE SINGH		DELHI	NOIDA S-18	41.20
GLN	3886784	KUNDAN KISHORE SINGH	DELHI	DELHI	NOIDA S-18	26.00
	3785027	DEVENDRA PAL SINGH	DELHI	DELHI	NOIDA S-18	53.40
GLN	2935248	IMRAN KHAN UMAR	DELHI	DELHI	NOIDA S-18	87.00
	3469262				NOIDA S-18	87.00
		SAURABH GARG			NOIDA S-18	176.80
		VINITA SINGH VINITA SINGH			NOIDA S-18	84.30 128.20
	3564933	SUNIL SINGH			NOIDA S-18 PREET VIHA	70.60
	3917930	SANJAY SACHDEVA		DELHI	PREET VIHA	70.40
	3902185	SANJAY SACHDEVA			PREET VIHA	62.10
	3495846	YAKINUDDIN .			PREET VIHA	31.50
	3748328	PREETI CHUGH			RAJGARDEN	177.70
		RENU CHAUHAN		DELHI	ROHINI	386.40
	3684151	MOHD MUBEEN		DELHI	SADARBAZAR	18.70
	3889189	KAJAL .		DELHI	SADARBAZAR	22.60
	3715090 3875144	ANIL KUMAR NITU JHA		DELHI DELHI	SADARBAZAR SEC-14-GRG	26.70 38.80
	3532243			DELHI	SEC-14-GRG	74.90
	3759505	ARUN .		DELHI	SEC-14-GRG	8.60
	3374454	MOHIT SHUKLA		DELHI	SEMRA	32.28
GLN	3619441	AMIT RAJ		DELHI	SEMRA	12.82
GLN	3680090	LAKSHYA GAMBHIR	DELHI	DELHI	SOUTHEX	223.60
	3680070	LAKSHYA GAMBHIR		DELHI	SOUTHEX	158.50
		SUKHDEV MAITY		DELHI	SOUTHEX	30.50
GLN	3872513	ASHA PRAKASH		DELHI	SOUTHEX	23.50
GLN	3147280	BABITA . BABITA .		DELHI DELHI	SOUTHEX	121.80
		ANGAD KUMAR GUPTA		DELHI	SURAJPUR	69.10
GIN	3882496	ANGAD KUMAR GUPTA		DELHI	SURAJPUR	85.70
		HEMANT KUMAR		DELHI	YAMUNAVIHA	13.90
	3642872	RAVINDER .		DELHI	YAMUNAVIHA	13.90
		PUSHPENDRA SINGH			YAMUNAVIHA	9.80
					signature and add	

Bidders are requested to Submit a copy of their Photo – identity, signature and address proalong with their original for verification together with 2(Two) recent photographs submi before 10:00 am on the day of auction. The Bank reserves the right to change th enue/date/time of auction or cancel the auction without any notice to bidders.

The cost of the auction process will be debited to the customer account. Bank reserves the right to recover the balance amount from the customer if the bid amount is insufficient to me ne payoff amount of the account

For any further details regarding the terms and conditions of the auction, You are required t ontact the below mentioned person/s. Kotak Mahindra Bank Ltd.

(Piyush Kumar ) Email - piyush.kumar6@kotak.com Cont - +91-9717667812

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड ANAND RATHI

नबिक नीचे उधारकर्ताओं ∕सह-उधारकर्ताओं ने आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। हम कहते हैं कि वित्तीय बावजूद, उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज और मूल राशि के पुनर्मुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार नीचे उल्लिखित संबंधित तारीखों पर खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पटित थारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफासी अधिनियम, 2002 की बारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर मांग नोटिस जारी किए, जिसमें निम्निलखित उधारकर्ताओं /बंथककर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तारीख तक चुकाने का

उषारकर्ताओं ⁄सह–उषारकर्ताओं का नाम / पता	बकाया राशिः रु. 51,	87,628 / -	बकाया राशिः रु. ६	38,409/-
(1) श्री संजय सिक्का (उधारकर्ता), डीडीए जनता, फ्लैट सं. 126-बी प्रथम	दर	13.00%	दर	13.00%
तल, ब्लॉक बीजी-6, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063।	मूल बकाया	48,82,660	मूल बकाया	5,96,919
(2) श्रीमती मोनिका, डीडीए जनता, फ्लैट सं. 126-बी प्रथम तल, ब्लॉक	लंबित ईएमआई राशि	2,44,324	लंबित ईएमआई राशि	31,632
बीजी-6, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063।	टूटी अवधि का ब्याज	-	टूटी अवधि का ब्याज	-
<b>संपत्ति का पताः</b> - डीडीए फ्लैट सं. 126-बी, ब्लॉक बीजी-6, प्रथम तल,	अतिदेय ब्याज	37,774	अतिदेय ब्याज	2,758
		7,670	कानूनी शुल्क	-
पश्चिम विहार, नई दिल्लीः 110063. पूर्वः फ्लैट सं. बीजी-6/125बी,	नोटिस शुल्क	2,200	नोटिस शुल्क	1,100
पश्चिमः रोड, उत्तरः फ्लैट संख्या बीजी-6/127बी, <b>दक्षिणः</b> गली	ईएमआई बाउँस शुल्क	13,000	ईएमआई बाउंस शुल्क	6,000
APPL00006317   APPL00008162	कुल बकाया	51,87,628	कुल बकाया	6,38,409

पर्यक्त परिस्थितियों में. उपरोक्त उथारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और लाग शल्ट के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ आगें की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 की घारा 13(4) और इसके तहत लागू नियमों के तहत उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेना शामिल है। यदि आप इस नोटिस के जवाब में कोई प्रतिनिधित्व करने के इच्छक इं, तो कृपया इसे हमारे प्राधिकृत अधिकारियों श्री अभिषेक चंद, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड-8वीं मंजिल, ''ए'' विंग, एक्सप्रेस जोन बिल्डिंग, वेस्टर्न एक्सप्रेर हाईवे रोड, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई 400063 को सूचित करें, ताकि हम समय पर जवाब दे सकें। कृपया ध्यान दें कि यदि इस नोटिस के जवाब में आपका कोई अभ्यावेदर किसी अन्य व्यक्ति या स्थान को संबोधित है तो हम उसका उत्तर न देने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोइ भी उधारकर्ता, सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, नोटिस में निर्दिष्ट अपनी किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी भी माध्यम से स्थानांतरित

एनपीए की तिथि : 03.08.2025 । ऋण राशिः रु. 51,50,000 /— । मांग सूचना की तिथिः 08.08.2025 । ऋण राशि रु. 6,25,000 /—

हस्ता / – आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी दिनांकः 08.08.2025 । स्थानः नई दिल्ली

## डीसीबी बैंक लिमिटेड

DCB BANK

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना आप नीचे उल्लेखित उधारकर्ता(ओं ) और सह—उधारकर्ता(ओं) ने आपकी अचल संपत्तियों (प्रतिसूतियों) को गिरवी रखकर **डीसीबी बैंक लिमिटेड** से ऋण(ओं को प्राप्त किया है, आपके चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋणों को गैर—निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। **डीसीबी बैंक लिमिटेड** ने बकाय

र्यं राशियों की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) है इहत मांग सूचना जारी की है। जिसकी विषय—वस्तु यहां अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3(1) के सार रि आपके लिए वैकल्पिक सेवा के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है। उधारकर्ता, सह—उधारकर्ताओं, प्रतिभूतियों, ऋणदाता, बकाया देय राशि, धारो 13(2) वे नहत भेजी गई मांग सचना और उसके तहत दावा की गई राशि का विवरण निम्नानसार दिया गया है :

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	प्रत्याभूत परिसंपत्ति पता	1. मार्ग सूचना दिनाक 2. बकाया राशि 3. एनपीए दिनांक	
	1.श्रीमनीष कुमार, 2.श्रीमती मुन्नी देवी <b>सभी निवासी पता :–</b> साई यां – आगरा–283124 ऋण खाता सं.: DRBLAGR00580878 स्वीकृत ऋण राशि: रु. 7,85,649/–	प्लॉट मापक 91.14 वर्ग मीटर मौजा साईयां तहसील खेरागढ़ जिला : आगरा का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग, <b>सीमांकन:</b> पूर्व: तारा चंद का प्लॉट, पश्चिम : किशोर वर्मा का मकान, उत्तर: प्रकाश चंद की भूमि, दक्षिण : रास्ता	2) रु.७,७०,००४ /— (रुपये	
	1. श्री आलम शेर खान पुत्र अफजल खान, 2. मैसर्स आतम इंटर प्राईसेस अपने मालिक श्री आलम शेर खान के माध्यम से 3. श्रीमती तवस्सुम पत्नी आलम शेर खान सभी निवासी पता :— निवासी दुसरा तल, मकान सं. डब्ल्यू जेड 221/39ए, प्लाट सं. 39, गली सं. 1, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली 110018 ऋण खाता सं. : DRHLDEL00564162/DRBLDEL00564204 स्वीकृत ऋण राशि : रु. 43,00,000/—	39, पश्चिम : स्कूल, उत्तर : 30 फुट चाड़ा सड़क, दाबण :	2) रु.44,59,793/– (रुपये सात लाख नब्बेहजार चार मात्र) 11 जुलाई, 2025 तक 3) एनपीए दिनांक –	

सलिए आपको उधारकता/ओँ और सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों को इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लेखित राशि का भुगतान भविष्य वे ्याज के साथ करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभृतियों को प्रवर्तीत करने के लिए अधिनियम के तहर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। <mark>आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है. जिसके</mark> **आधार पर आप उपरोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्याभूत संपत्ति को छुड़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।** कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम व रा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे यो अन्यथा के माध्यम से उपर्युक्त प्रतिभृतियों को स्थानांतरित करने से रोका जात

प्रति डीसीबी बैंक लिमिटेड दिनांक : 09.08.2025 रिश्यान : दिल्ली, आगरा. उ.प्र.

## कार्यालय वसूली अधिकारी–प्रथम

ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-।।, किसान भवन के सामने, लाल कोठी, शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान) (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य) फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत) वसूली प्रमाण पत्र संख्या : 025/2023 प्रकरण का उनवान

नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट 28.07.2025 (बैंक द्वारा) नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा) निरीक्षण की तिथि अमानत राशि जमा एवं 04.09.2025 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि र्ड-ऑक्शन 10.09.2025 रिपोर्ट 15.09.2025

## STATE BANK OF INDIA VERSUS ARPANA SHEKHAWAT & OTHERS

विक्रय की उदघोषणा

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसुली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसुली प्रमाण पत्र संख्या 25/2023 जो कि मुल आवेदन संख्या 579/2021 में दिनांव 20.12.2022 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध राशि रुपये 35,78,706.00 की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद ब्यय एवं खर्च सहित वसल किये जाने योग्य है। तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तथा यह कि वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 20.03.2023 तक ब्याज, वाद व्यय खर्ची सहित कुल राशि रुपये 40,28,414.52 एवं भविष्य का व्याज बकाया है। एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपरिश्वति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय दिनांक 10.09.2025 को CI India Pvt. Ltd. कार्यालय 3rc or, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Bhavik Pandya - 8866682937, Mobile No. +91 7291891124/25/26 and Mr. Vinod Kumar - 8866682931 वेबसाईट www.bankeauctions.com पुर 11 AM से 3 PM तक किया जावेगा। दोपहर 03 बज गद 05 मिनिट तक यदि कोई बोली नहीं बढ़ाता है तो स्वीकार कर ली जाऐगी। किंतु यदि समय 3:05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुन: नीलामी समय 05 मिनट बढ़

. ह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की संपत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये ग हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है। संपत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसी स्थिति में है'' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विकय पारम्भ करने से पूर्व जक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विकय की लागत सहित) विकय निष्पादित करने वाले अधिकारी क अदा कर दी जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तं विक्रय रोक दिया जावेगा। विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्व व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति व अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा। विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तो तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एर निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन होगा :-

(1) सलंग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहरताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहरताक्षरकर्ता उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथग चूंक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा। (२) सम्पत्ति का आरक्षित मृत्य राशि रुपये निम्नानुसार तय किया गया है जिसे कम मृत्य में सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जावेगा सम्पत्ति ४५.०० लाख। (३) सम्पत्ति की बोली राशी रूपय ५०,०००/- के गुणांक में बढ़ाई जायेगी, तथा बोली कि राशि अथवा बोलिदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरंत ही पुन: नीलामी के लिए रख दिया जाएगा। (४) इच्छक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित वेबसाईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। (5) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत आरक्षित राशि वसूली अधिकारी,ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा युनियन बैंक ऑफ इण्डिया सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान IFSC No. UBIN0831093 में संधारित खाता संख्या 310911010000088 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने व प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे है) प्रस्तुत करने होंगे जो कि सेवा प्रदाता की i.e. C1 India Pvt. Ltd. Office at 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, on e-ma gujarat@c1india.com & support@bankauctions.com पर भी भेज सकते हैं । उसके उपरांत नियत समय से पूर्व अधिकरण में जमा करवाई जावेगी । (6) किर्स भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को सफल केता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोर्ल आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पप्टतः इतन भपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो । (७) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को किर्स ी समय स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा। (३) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् (विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में ) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जायेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्य 310911010000088 में जा करवायी जायेगी अथवा जरिये डी.डी (वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर) भी अधिकरण में जमा कराई जाएगी। (9) नीलार्म राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी की तिथि से 15 वें दिवस तक जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कार्याल दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त राशि युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सीतापुरा, जयपुर में स्थित खाता संख्या 310911010000088 में जमा करवायी जायेगी अथव जरिये डी.डी. (वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर) भी अधिकरण में जमा कराई जाएगी। उउल अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पर्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी कर दिया जावेगा। (10) ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावे तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के प्रचात् जब्त सरकार कर ली जावंगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी माग के विषय में सभी अधिकार जब्त हो जावंगे। सफ बोलीदाता को प्रथम 1000/-रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके परचात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान जरिये डी. डी. (रजिस्ट्रार, ऋण वसूर्ल . धिकरण, जयपुर के नाम) करना होगा। (11) प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को दिनांक नियत तिथि पर संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेर्ग जिसके लिए इच्छक बैंक के अधिकारी श्री आशीष गप्ता / मनोहरमीणा पढ़ मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक से मोबाईल संख्या 7357044666, 8959902080 पर सम्पर्क कर सक हैं। (12) यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी/सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते है। (13) प्रस्ताविव हिंदि है। अपने पुरस्कार के अपने स्वरंग किया है। अपने स्वरंग के अप www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है। (14) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं पंजीयन की अन्तिम तिथी 04.09.2025 को सांय 3.00 बजे तक है। इच्छुव बोलीटाना को पंजीयन कराए जाने हेत आवश्यक के वार्ड भी दस्तावेजात जो कि सेवा प्रदाता को प्रेषित किए गए है. अधिकरण में जमा कराने होगे । (15) आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता C-1 India Pvt. Ltd, के द्वारा दिनांक 10.09.2025 को प्रात 11 बजे से साय 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। दोपहर 03 बजे बाद 0

मिनिट तक यदि कोई बोली नहीं बढाता है. तो स्वीकार कर ली जाएगी। किंत यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढाई जाती है, तो पुन: नीलामी समय 05 मिनट बढा दिय जायेगा। (16) असफल बोलीदाताओं द्वारा धरोहर राशि का भुगतान युनीयन बँक ऑफ इंपिड्या, सीतापुरा, जयपुर के द्वारा अधिकरण से आदेश प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा।

14741 011	9.11						
लॉट	सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहमालिक का नाम सहित	सम्पत्ति या उसके	किसी भी प्रकार	विवाद अगर कोई है जो कि			
की	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो	किसी भाग पर	के भार का विवरण	सम्पत्ति के संबंध में आगे आया			
संख्या	किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है	राजस्व जिसका	जिसके लिए	है एवं अन्य कोई ज्ञात			
		मूल्यांकन	सम्पत्ति	विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य			
		किया गया है।	उत्तरदायी है।	एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
	Property Flat No. B-803, Terraza Greens, On 7th Floor, Tower B, having super built up area 1321.32 Sq.ft/ built up area 993.48 Sq.ft, Situated in Khasra No. 88, Village Sukhiya, Tehsil Sanganer, District Jaipur	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं			
मेरे हस्त	ारे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 28.07.2025 को जारी। वसुली अधिकारी-प्रथम ऋण वसुली अधिकरण, जयपुर						

# **(A)** naukri



# Quadrangle infoedge



Jeevansathi.

## **INFO EDGE (INDIA) LIMITED**

Regd. Office: Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no.: 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website: www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

					T			ount in ₹(Mn)
	Results on Standalone Basis				Results on Consolidated Basis			
Particulars	3 months ended 30/06/2025	Preceding 3 months ended 31/03/2025	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2024	Year ended 31/03/2025	3 months ended 30/06/2025	Preceding 3 months ended 31/03/2025	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2024	Year ended 31/03/2025
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total Income from operations (net)	7,363.75	6,870.92	6,389.04	26,536.13	7,908.62	7,496.25	6,767.06	28,495.51
<ol><li>Net profit for the period/year (before tax, exceptional items)</li></ol>	3,462.29	3,098.55	3,042.96	12,871.04	4,356.89	7,161.01	3,293.90	17,976.42
<ol><li>Net profit for the period/year before tax (after exceptional items)</li></ol>	3,462.29	3,174.99	3,042.96	13,435.11	4,310.60	7,416.13	3,318.70	19,446.19
<ol><li>Net Profit for the period/year after tax</li></ol>	2,596.20	2,550.65	2,322.86	7,734.20	3,428.56	6,778.92	2,588.58	13,099.01
5. Total Comprehensive income/(loss) for the period/year (comprising profit for the period/year (after tax) and other comprehensive income/(loss) (after tax))	66,765.25	(75,146.12)	21,732.12	25,023.03	79,181.65	(97,099.93)	35,825.94	52,252.02
6. Equity Share Capital	1,295.84	1,295.84	1,293.84	1,295.84	1,295.84	1,295.84	1,293.84	1,295.84
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year				275,718.80				347,736.28
Earnings per share (FV of ₹2 each) (Adjusted, not annualised)								
a) Basic - Profit after tax (after exceptional items)	4.01	3.94	3.60	11.96	4.57	7.16	3.61	14.88
<ul> <li>a) Basic - Profit after tax [before exceptional items (net of tax &amp; Deferred tax)]</li> </ul>	4.01	3.82	3.60	15.42	4.64	6.77	3.57	17.88
<ul><li>b) Diluted - Profit after tax (after exceptional items)</li></ul>	4.00	3.93	3.58	11.92	4.56	7.14	3.59	14.83
b) Diluted - Profit after tax [before exceptional items (net of tax & Deferred tax)]	4.00	3.81	3.58	15.37	4.63	6.74	3.55	17.82

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).

2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards(Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Stardards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.



Place: Noida Date: August 08, 2025 For & on behalf of the Board

Hitesh Oberoi Managing Director DIN: 01189953